



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 319]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

भारतीय स्टेट बैंक

सूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2014

भारतीय स्टेट बैंक – ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में कमी करना (शेयरों का उप-विभाजन)

उपर्युक्त के संदर्भ में, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 4 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक(द बैंक) के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से बैंक के ईक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को प्रति शेयर रु.10 से घटाकर रु.1 कर देने का निर्णय किया है। तदनुसार, उप-विभाजित ईक्विटी शेयरों को प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अभिलिखित तारीख 21 नवम्बर, 2014 (शुक्रवार) निर्धारित की गई है।

2. कागजी स्वरूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को उनके नाम से पंजीकृत प्रत्येक पचास शेयरों या उसके गुणकों के लिए एक नया शेयर प्रमाणपत्र और उससे अधिक लेकिन पचास से कम के शेयरों के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि शेयरों की संख्या पचास से कम हो, तो सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। तथापि, उन शेयरधारकों के लिए एक विकल्प उपलब्ध रहेगा जो अपने शेयरों को आने वाली किसी तारीख पर दो या दो से अधिक प्रमाणपत्रों में विभाजित कराना चाहते हैं परंतु यह विकल्प केंद्रीय बोर्ड या उक्त प्रयोजन हेतु यथा प्राधिकृत बोर्ड की समिति के अनुमोदनाधीन रहेगा।

3. शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में (कागज रहित स्वरूप) धारित करने वाले शेयरधारकों के मामले में उप-विभाजित शेयरों को उनके संबंधित डीमैट खाते में अभिलिखित तारीख अर्थात् 21 नवम्बर, 2014 (शुक्रवार) के पश्चात तत्काल जमा (क्रेडिट) कर दिया जाएगा।

4. बैंक द्वारा जारी किए गए रु.10 के अंकित मूल्य वाले वर्तमान ईक्विटीशेयर प्रमाणपत्रों की वैधता दिनांक 22 नवम्बर, 2014 से समाप्त हो जाएगी। तदनुसार, शेयरधारकों को उनके हित में यह सूचित किया जाता है कि वे उप-विभाजित नए शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और नए शेयर प्रमाणपत्रों में उल्लिखित व्योरों की सत्यता की जाँच करने के पश्चात प्रति रु.10 वाले पुराने शेयर प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) को नष्ट कर दें। यथा उपर्युक्त उप-विभाजित शेयरों को जारी करने के बाद भी यदि कोई शेयरधारक प्रति रु.10 वाले पुराने शेयर प्रमाणपत्रों को अपने पास रखता है, तो उन पुराने शेयर प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी सौदे/दुरुपयोग से होने वाले किसी नुकसान/हानि के लिए बैंक और उसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होंगे।

5. नए शेयर प्रमाणपत्रों पर नई शेयर प्रमाणपत्र संख्याएं/विशिष्ट संख्याएं अंकित होंगी और उन्हें उन सभी शेयर बाजारों में क्रय-विक्रय हेतु स्वीकार किया जाएगा जहाँ पर बैंक के शेयरों को वर्तमान में सूचीबद्ध किया गया है।

6. शेयरों के अंकित मूल्य में कमी किए जाने के फलस्वरूप पुराने शेयर प्रमाणपत्र के बदले में जारी किए जा रहे नए शेयर प्रमाणपत्रों और उनसे जुड़े मामलों के संबंध में किया जाने वाला कोई भी पत्र-व्यवहार नामित रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास नीचे दिए गए पते पर भेजा जाना चाहिए :

डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

इकाई :- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – इक्विटी

प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी, क्रासलेन

एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व)

मुंबई-400 093

फोन नं. – 022-66712198/2199, 66712202/2203

फैक्स – 022-66712204

ई-मेल -sbi_eq@dfssl.com

शेयरधारकों से यह अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के साथ कोई भी पत्र-व्यवहार करते समय अपने रजिस्टर्ड फोलियो नम्बर/डीपी आईडी नम्बर/क्लाइन्ट आईडी नम्बर का उल्लेख करें।

रश्मि प्रसाद, महाप्रबंधक (शेयर एवं बॉण्ड)

दिनांक : 28.10.2014

स्थान : मुंबई

[विज्ञापन III/4/असा/39/14]

कागजी अंशों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप (कागज रहित स्वरूप) में परिवर्तित करवाने की विधि, बैंक की वेबसाइट में <https://www.sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/share-holder-info> लिंक पर उपलब्ध है । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा परिवर्तन, अंशों के उपविभाजन की उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया हेतु, बाध्य नहीं है।

STATE BANK OF INDIA

NOTICE

New Delhi, the 28th October, 2014

State Bank of India – Reduction in face value of equity shares (sub-division of shares)

With reference to the above, in terms of section 4 of the State Bank of India Act, 1955, the Central Board of the State Bank of India (the “Bank”) with the approval of the Reserve Bank of India, has decided to reduce the face value of equity shares of the Bank from Rs.10 per share to Rs.1 per share. Accordingly, 21st November, 2014 (Friday) has been fixed as the Record Date to determine the eligibility of shareholders to receive sub divided equity shares.

2. The shareholders, who are holding shares in physical form, will be issued one new share certificate for each fifty shares or multiple thereof registered in his name and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but less than fifty. If the total number of shares are less than fifty, one certificate shall be issued for all the shares. However, there will be an option available to those shareholders who wish to get their certificate(s) split in to two or more certificate(s) at a later date, subject to the approval of the Central Board or its Committee as authorized for the said purpose.

3. For the shareholders having dematerialized shares, sub-divided shares will be credited to their respective DEMAT accounts immediately after the Record Date i.e. 21st November, 2014 (Friday).

4. The existing equity share certificates, issued by the Bank, bearing face value of Rs.10, will cease to be valid with effect from 22nd November, 2014. Accordingly, the shareholders are advised in their own interest, to destroy the old share certificate(s) of Rs.10 each, once they receive the sub-divided new share certificates and after verifying the correctness of the particulars mentioned in the new share certificate. The

Bank and its Registrar and Transfer Agent (RTA), shall not, in any manner, be responsible for any loss/harm that may arise out of any transaction/misuse based on the old share certificate(s) of Rs.10 each, if any, retained by the shareholders even after the issuance of sub-divided shares as above.

5. The new share certificates will bear new share certificate numbers/distinctive numbers and shall be admitted for trading in all stock exchanges where the shares of the Bank are presently listed.

6. Any communication in connection with the issue of new share certificate being issued in lieu of old share certificate pursuant to the reduction in face value and related matters may please be addressed to the designated RTA at the address given below:—

Datamatics Financial Services Ltd,

Unit: State Bank of India - Equity

Plot No. B-5, Part B, Crosslane,

MIDC, Andheri (East),

Mumbai-400093

Telephone Nos : 022-66712198/2199, 66712202/2203

Fax No. : - 022-66712204

E-mail:- sbi_eq@dfssl.com

Shareholders are requested to quote their registered folio number/DP ID number/ Client ID number while making any communication with the RTA.

RASHMI PRASAD, General Manager (Shares & Bonds)

Date:- 28.10.2014

Place: Mumbai

[ADVT III/4/Ext./39/14]

Shareholders holding shares in physical form and interested to convert the same into dematerialised form are requested to visit Bank's website under the link <https://www.sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/share-holder-info> for detailed information in the matter .